

RPP Infra Projects Ltd

No.280/SECT/Stock Exchange/2021-22

Date: January 7, 2022

To,

The General Manager, Listing Department, BSE Limited, Floor -25, Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code: 533284

The Vice-President, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5"Floor, Plot No. - C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -400051 Symbol:RPPINFRA

Dear Sir/Madam,

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement for First and final Call Notice in accordance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. We are submitting herewith the eclippings of the First and Final Call Notice published in connection with the Rights Issue of the Company, in the following newspapers on January 07, 2022:

- 1. Financial Express- (English) (All Editions)
- 2. Jansatta (Hindi) (All Editions)
- 3. Daily Thanti (Tamil- Erode)

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

RPP Infra Projects Limited,

Pradeep Kumar Nath

Company Secretary



Regd Office :

S.F. No. 454, Raghupathynaiken Palayam, Railway Colony (Post), Poondurai Road, Erode - 638 002. Tamilnadu. India. : +91 424 2284077

🚊 : +91 424 2282077

🗙 : ao@rppipl.com

🌐 : www.rppipl.com

CIN : L45201TZ1995PLC006113 PAN : AAACR9307E Service Tax No. AAACR9307EST001 GSTIN No. : 33AAACR9307E1Z0 **FINANCIAL EXPRESS**

5

CLASSIFIEDS

BUSINESS

LOANS



naz@vfslcapital.com www.vfslcapital.com

0070691857-51-1

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Super <mark>Age</mark> Borivali (E) Phone: 42872727

Express Advertising, Borivali (W). Phone : 2833 7799 / 2833 9977. Mobile: 9820401077

Falcon Multimedia Pvt. Ltd., Borivali (E) Mobile : 9833226463

Jeet Publicity Borivali (W), Mobile : 9820006816

Nikharge Advertising, Borivali (W), Phone : 28921255 Mobile : 9322210176

Sarvodaya Borivali (W), Mobile : 9322139909

Ad Plus Mira Road (E)

DEMAND NOTICE

Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rul 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further nterest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amoun due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under

Name of the Borrower(s)/ Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)				
Mr. Mohammed Sadique	31 Dec 2021	All that piece and parcel of the property being:				
Shaikh, Mrs. Halima Mohammed	Rs.47,03,564/-	Flat No.202 on 2nd Floor In "B" Wing in The				
Iqbal Shaikh, Mr. Mohammed	(Rupees Forty Seven	Society Known as "Aster Co-Op Hsg Soc Ltd"				
lqbal Shaikh	Lakh Three Thousand Five Hundred Sixty	Area Admeasuring 455 Sq.Ft., Building No.07 Sec-Vii on S.No.104, Plot No.197,198 Situated				
(Prospect No IL10116038)	Four Only)	at Village Nilemore Taluka Vasai District Palghar.				
If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above						

secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Than 400604/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Thane, Date: 07.01.2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that certificates for 12 shares bearing distinctive nos. 2270080 to 2270084, 9295850 to 9295850 and 9563333 to 9563338 of face value Rs.100/- under folio number D000015160 of ACC Limited standing in the name of Devina More have been lost or misplaced and the undersigned have applied to the Company to Issue duplicate certificate for the said shares.

Any person(s) in possession of the said share certificates or having any claim (s) to the said shares should notify to and lodge such claim (s) with the Share Department of the Company at Cement House, 121 Maharshi Karve Road, Mumbai - 400 020 within 21 days from the date of publication of this notice after which period no clams will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate certificates.

Place : KOLKATA Date : 07-01-2022

Sd/-**DEVINA MORE**

Centre for Aromatic plants (CAP) Industrial Estate, Selagui-248011, **Dehradun (Uttarakhand)** Telefax-0135-2698305,

E-mail: cap.dun@gmail.com, Website www.capuk.ir

e-Tender Notice No 21/CAP/2021-22

e-tenders are invited from the Authorized Indian Agents of Original Equipment Manufacturers (OEM) for the supply, installation and commissioning of Mobile Steam Distillation Units- 2 Nos. (4.5 Qtl, 2000 L capacity) alongwith all pipeline connection, pipe fittings & structure stand etc. complete to be fitted individually on Truck Chassis. The terms and Conditions of tender document along with other information can be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.in from 11 January, 2022 to 7th February 2022 and date of pre-bid meeting is scheduled on 20.01.2022. The cost of tender is Rs. 1180/-

-	de DE	LHIJ	JAL BO	OARD DELH	II SAR	KAR	
	OFFICE OF	THE	EXECI	JTIVE ENGIN	IEER ((T)/A.C.E.	.(M)-4
	LUCKN	OW F	ROAD,	TIMAR PUR	, DELł	HI-110054	
	Ş	Short NI	T. No.60	(Item no.1) (2021-	22) E.E.(Г)/А.С.Е(М)-4	
S. No.	Name of work		Estimated Cost (Rs.)	Date of release of tender in e- procure ment solution			Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Installation of new water connective water meter and replacement of defective water connection in water AC-04 under ACE(M)-04. I.D 2021_DJB_214201_1	old and	39,45,824/-	05.01.2022 04 P.M. onward	79,000/-	500/-	Technical bid will be received 13.01.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of tech- nical bid & confirmation of EMD from Bank.
-	S	hort NI	T. No.61 (Item no.1) (2021-2	22). E.E.(T)/A.C.E(M)-4	
S. No.	Name of work	Estimat Cost (R		of release of tender rocurement solution		Tender fee (Nor refundable	 Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
-1.	Improvement of 600 mm dia and 700 mm dia Peripheral sewer lines of Adarsh Nagar Constituency AC- 04 under ACE (M) 04.(Re-invite). I.D 2021_DJB_214202_1	37,94,52		05.01.2022 04 P.M. onward	75,900/-	500/-	Technical bid will be received 13.01.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
Fu	rther details in this regard can	be seer	n at https	://govtprocureme	nt.delbi.g	jov.in	Sd/-
	UED BY P.R.O. (WATER) /t. No. J.S.V. 963(2021-22)						(S.K. SINGH) EXECUTIVE ENGINEER-T(M)-4
	"STOP CORO	NA: *We	ar Mask	Follow Physical D	Distancin	a. Maintain H	and Hygiene"

R.P.P. INFRA PROJECTS LIMITED

Registered Office: S.F. No. 454, Raghupathynaiken Palavam, Railway Colony (Post), Poondurai Road, Erode - 638 002, Tamil Nadu, India Corporate Office: MKM Chambers, No. 42, Third Floor, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Tamil Nadu, India Contact Person: Pradeep Kumar Nath; Tel: +91 424 2284077; Facsimile: +91 424 2282077

RPp E-mail: rightsissue@rppipl.com; Website: www.rppipl.com; Corporate Identification Number: L45201TZ1995PLC006113

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities of the Company. All capitalized terms used and not defined here shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 15, 2021 filed with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited, and with SEBI for information and dissemination purposes.

FOR THE ATTENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAID UP SHARES (ISIN IN9324L01011) HELD AS ON RECORD DATE I.E. MONDAY, JANUARY 03, 2022

FIRST AND FINAL CALL NOTICE

- In terms of the Letter of Offer dated September 15, 2021 ("LOF"), the Company had issued upto 1,60,00,000 partly paid-up equity shares (including 17,70,000 equity shares reserved for the warrant holders) of a face value of ₹ 10 each and allotted 1,42,30,000 partly paid up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Rights Equity Shares") for cash at a price of ₹ 30/- per Rights Equity Share (including securities premium of ₹ 20/- per Rights Equity Share) on rights basis to the eligible equity shareholders of the Company.
- 2. An amount of ₹ 18 per Rights Equity Share (comprising ₹ 6 towards face value and ₹ 12 towards securities premium) was paid on application and balance monies was payable in one or more subsequent call(s).
- 3. The Board of Directors of the Company at its meeting held on December 22, 2021 made the following first and final call on the Rights Equity Shares:
- First & Final call of ₹ 12 per Rights Equity Share (comprising ₹ 4 towards face value and ₹ 8 towards securities premium), payable from Monday, January 10, 2022 to Monday, January 24, 2022, both days inclusive ("First & Final Call");
- The Company has fixed Monday, January 3, 2022 as the record date ("Call Record Date") for the purpose of determining the holders of the partly paid-up equity shares ("Eligible Shareholders") to whom the notice for the First & Final Call (the "First & Final Call Notice") has been sent. The Company has intimated the Call Record Date to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (collectively the "Stock Exchanges") on December 22, 2021.
- Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the LOF. 5. the First & Final Call Notice along with the instructions, ASBA Form and Payment Slip has been sent in electronic mode to the holder of partly paid up equity shares whose e-mail addresses are registered with the Company, or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on Call Record Date. Further, physical copy of the First & Final Call Notice along with the instructions, ASBA Form and Payment Slip, has been dispatched through permitted modes at registered



Participant(s). The said Notice will also be available on the Company's website at https://growington.in/ and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the

Mobile : 8779657505

Ashansi Advertising & Press Relations, Mira Road (E), Phone: 022-28114235 Mobile: 9833933502

M.S. Advertising, Bhayander (E), Phone: 022-28160100 Mobile: 9769711727

Sugo Advertising, Vasai (W). Phone: 7756982329/ 7028565571

Mayuresh Publicity, Virar (W). Phone : 0250 - 2503913. Mobile: 9923935556

Plasma Advertising. Panvel. Phone: 022-27461970

Ronak Advertising Vashi. Phone: 71012345 Mobile: 9324102060/ 9820152753

Rahul Advertising Vashi. Phone: 022-65119998

Mobile: 9820200044 S.Kumar Publicity.

Vashi, Phone: 27898472 Mobile : 9820889848

Siba Ads & Communications, Vashi. Phone: 27892555/ 61372555

A.M. Corporation, Thane (Ŵ). Phone: 67311000.

Advait Advertising Thane (W). Phone: 25345294 / 25380080.

Ashwini Communication Thane (W). Phone: 2544 5007 Mobile : 9820927100

Mangal Advtg & Consultancy, Thane (W). Phone: 2538 8134 Mobile: 9869197367

Sahil Advertising Thane (W). Phone: 25406749, Mobile: 9223355732

Sarathi Enterprises, Thane (W), Phone: 25426604 Mobile : 9920003886

Shireen Advertising, Thane (W). Phone: 25343648 / 25341538

Surbhi Advertising Thane (W). Phone: 67924448/9, 66743142

Swati Advertisers, Thane (W), Phone : 9820786203

Mavekar's Ad Junction Dombivli (E). Phone : 0251-2862551 Mobile : 9870017985

Aries Media Dombivali (E). Phone : 0251 – 2430030 Mobile : 9892333300

Budhkar Publicity Pvt. Ltd. Kalyan (W). Phone: 0251 - 2205995 Mobile : 9322400262

Dimensions Advertising. Dombivli (E). Phone : 0251-2445074 Mobile : 9322597885

Sd/-Sunita Gupta (Company Secretary and Compliance Officer) M.No: 57186

For GROWINGTON VENTURES INDIA LIMITED

OSBI

Platform Engineering-I Department, State Bank of India,

Global IT Centre, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614

CORRIGENDUM-1

Please refer to RFP no. SBI/GITC/Platform Engineering-I/2021/2022/809 Dated: 06.12.2021 for Procurement of Comprehensive Endpoint Security Solution for State Bank Group. Corrigendum-1 dated

06.01.2022 can be accessed under procurement news at https://www.sbi.co.in and e-Procurement agency portal

GROWINGTON VENTURES INDIA LIMITED

(Formerly known as VMV Holidays Limited) CIN: L63090MH2010PLC363537

Registered Office: Shiv Chamber, 4th Floor, Plot No. 21, Sector - 11, CBD Belapur Navi Mumbai - 400614 Email id:vmvholidays.sme@gmail.com;Website: https://growington.in/

INFORMATION REGARDING EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/

OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the members

of the company is scheduled to be held on Friday, 04th February, 2022 at 09:45 A.M.

through VC/ OAVM without physical presence of the members at a common venue, in

compliance with the provisions of the Companies Act 2013, ('the Act') MCA Circular No.

14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the

Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and

Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from

time to time, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020, Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 and all other relevant

circulars issued from time to time issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI).

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of EGM will be sent

and self-attested scanned copy of PAN card by email to the company at

vmvholidays.sme@gmail.com or to the Share Transfer Agent of the Company at

Members holding share(s) in electronic mode are requested to register/update their

e-mail addresses with their respective Depository Participants ("DPs") for receiving a

Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses

The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to

the members through email after successfully registering their email addresses in the

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the

Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

as set forth in the Notice of the EGM through remote e-voting system.

to transact the business as set out in Notice Convening the EGM.

Company are listed (www.bseindia.com).

support@purvashare.com

manner provided above.

Place : Mumbai

Dated : 07/01/2022

Manner of casting Vote through e-voting:

Manner of registering/ updating email addresses:

communications from the Company electronically.

sd/-

Deputy General Manager

(Platform Engineering-I Department)

https://etender.sbi/SBI/

Place: Navi Mumbai

Date: 07.01.2022

including GST. EMD is Rs. 1,40,000/ (Rupees one lakh forty thousand only). The tender can only be applied through e-tendering procedure on the website www.uktenders.gov.in. The last date of applying and submission of tender is 6th February 2022.

Director

6.

(This is a public announcement for information purposes only and is not an announcement for the Letter of Offer. Not for publication or distribution, directly or indirectly, outside India)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

DATA INFRASTRUCTURE TRUST (formerly, Tower Infrastructure Trust)

(Set-up as a Trust on January 31, 2019 and registered as an infrastructure investment trust under the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 ("InvIT Regulations"), originally under the name 'Tower Infrastructure Trust', on March 19, 2019, having registration number IN/InvIT/18-19/0009 at Mumbai. Subsequently, the name of the Trust was changed to 'Data Infrastructure Trust' upon issuance of fresh Certificate of Registration dated October 8, 2021 under the InvIT Regulations).

Principal Place of Business: Unit 1, 4th Floor, Godrej BKC, Plot No. C-68, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 6600 0700; Compliance Officer: Mr. Inder Mehta E-mail: secretarial@summitdigitel.com; Website: www.towerinfratrust.com

TRUSTEE	SPO	NSORS	INVESTMENT MANAGER	
	BROOKFIELD SPONSOR	RELIANCE SPONSOR	INVESTMENT MANAGER	
Axis Trustee Services Limited	BIF IV Jarvis India Pte. Ltd.	Reliance Industrial Investments and Holdings Limited	Brookfield India Infrastructure Manager Private Limited (formerly, WIP (India) Private Limited)	

ISSUE OF UP TO [+] UNITS OF DATA INFRASTRUCTURE TRUST ("DIT" OR "TRUST" AND SUCH UNITS, THE "UNITS"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER UNIT (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 3,180 MILLION* TO THE ELIGIBLE UNITHOLDERS (AS DEFINED HEREINAFTER) ON A RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [+] LOTS FOR EVERY [+] LOTS (EACH LOT COMPRISING [•] UNITS) HELD BY THEM ON THE RECORD DATE, BEING [•] (THE "ISSUE") IN ACCORDANCE WITH THE INVIT REGULATIONS AND THE SEBI RIGHTS ISSUE GUIDELINES. THE RECORD DATE IS [+]. FOR FURTHER DETAILS. PLEASE SEE THE SECTION ENTITLED "THE ISSUE" ON PAGE 15 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

*The size of the Issue is the amount approved by the Data InvIT Committee of the Board of Directors of the Investment Manager on December 28, 2021. Further, the size of the Issue shall be subject to finalisation of Allotment in the Issue.

This public announcement is being made in compliance with paragraph 3.5 of the Circular bearing number SEBI/HO/DDHS/ DDHS/CIR/P/2020/10 dated January 17, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), entitled Guidelines for Rights Issue of Units by a listed Infrastructure Investment Trusts (InvITs), read with the circular bearing number SEBI/HO/ DDHS/DDHS/CIR/P/2020/36 dated March 13, 2020, issued by the SEBI, entitled the Amendments to guidelines for rights issue, preferential issue and institutional placement of units by a listed InvIT (together, the "SEBI Rights Issue Guidelines") to inform the public that the Trust is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Units on a rights basis and has filed Draft Letter of Offer dated January 5, 2022 (the "Draft Letter of Offer") with SEBI and BSE Limited ("BSE") on January 6, 2022 in relation to the Issue.

Pursuant to paragraph 3.3 of the SEBI Rights Issue Guidelines, the Draft Letter of Offer filed shall be made public, for comments, if any, for a period of seven working days from the date of such filing and shall be available on the websites of the Stock Exchange, being, www.bseindia.com. Furthermore, pursuant to paragraph 3.4 of the SEBI Rights Issue Guidelines, the Draft Letter of Offer will also be available on the website of the Trust at www.towerinfratrust.com and Lead Manager to the Issue, i.e. Ambit Private Limited at www.ambit.co All members of the public are hereby invited to provide their comments on the Draft Letter of Offer to the Compliance Officer of the Trust or the Lead Manager. All comments must be received by the Trust or the Lead Manager on or before 5:00 p.m. (IST) on the 7th working day from the aforementioned date of filing the Draft Letter of Offer with BSE (being, January 14, 2022).

Investments in Units involve a high degree of risk and Bidders should not invest in the Issue unless they are prepared to take the risk of losing all or part of their investment. For details see section entitled "Risk Factors" of the Letter of Offer and other disclosures included in the Letter of Offer, when available, before making an investment decision relating to the Issue. Bidders should not rely on the Draft Letter of Offer for any investment decision. Each Bidder is advised to consult its own advisors about the consequences of an investment in the Rights Entitlements and the Units issued pursuant to the Letter of Offer. The Rights Entitlements and the Units being offered in the Issue have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Letter of Offer and the Letter of Offer. Admission of the Units to be issued pursuant to the Issue for trading on the Stock

address of those shareholders: a) who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or DP; or b) who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the First & Final Call Notice on January 06, 2022. The specimen copy of the First & Final Call Notice along with the instructions, ASBA Form and Payment Slip are also available on the Company's website at http://www.rppipl.com/shareholders-information.php.

The First & Final Call payment can be made by you by opting any one of following modes, namely, (a) Online ASBA, (b) Physical ASBA, (c) 3-in-1 type account, (d) R-WAP portal (https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney), and (e) Deposit of cheques / demand drafts with the 'Collection Centers' of the Escrow Collection Banks along with payment slip. Visit https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=35 to refer to the list of existing SCSBs (for points (a) and (b) above). Please read instructions given along with this First and Final Call Notice before making payment of the First & Final Call.

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated December 8 2020, Eligible Shareholders can also make the payment of the First & Final Call through the facility of linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts), provided by some of the registered brokers. Please check with your respective broker for availability of the 3-in-1 type account facility and the process to be followed. The Company, the Lead Manager or the RTA will not be responsible for non-availability of this payment mode to the Eligible Shareholders from their respective brokers.

Further, in accordance with SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, read with SEBI circulars bearing reference numbers SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020, SEBI/HO/CFD/ DIL1/CIR/P/2021/13 dated January 19, 2021, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552 dated April 22, 2021 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/633 dated October 1, 2021 (the "SEBI Relaxation Circulars"), Resident Eligible Shareholders may pay the First & Final Call electronically through the R-WAP portal: https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney. Payment may be made through net banking or UPI. Do note that R-WAP is only an additional option and not a replacement of ASBA and R-WAP facility should be utilized only in the event that shareholders are not able to utilize the ASBA facility for making the payment despite their best efforts. The Company and the RTA shall not be responsible if the application is not successfully submitted or if it is rejected during the process while using the R-WAP facility. NON-RESIDENT ELIGIBLE SHAREHOLDERS ARE NOT ELIGIBLE TO APPLY THROUGH THE R-WAP PORTAL

In case the Eligible Shareholders chose to pay through Cheque/DD, duly filled up Payment Slip along with the cheque or demand draft must be presented at ICICI Bank Limited at the following locations on or before January 24, 2022:

For Resident Agra - ICICI Bank Ltd, No. 6, 8-13, Ground Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra - 282002; Shareholders Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, Jmc House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G.Road Ambawadi, Ahmedabad - 380006; Amritsar - ICICI Bank Ltd, 361, M.C International The Mall Amritsar, Punjab - 143001; Bangalore - ICICI Bank Ltd, 1, Shobha Pearl, Commissariat Road, Off M G Road, Ground Floor, Bangalore - 560025; Belgaum - ICICI Bank Ltd, 14, Khanapur Road, Rpd Cross, Tilakwadi, Belgaum - 590006: Bharuch - ICICI Bank Ltd, Blue Chip Sanitorium Compound, Sevashram Road, Panch Batti, Bharuch - 392001; Bhavnagar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 2569, Ground Floor, Ratnadeep Complex. Opp. Central Salt Research Institute, Waghawadi Road, Bhavnagar Gujarat - 364002; Bhopal ICICI Bank Ltd, Alankar Palace, Plot No.li, Zone Ii, M P Nagar, Bhopal, Mp - 462011; Bhubaneswar ICICI Bank Ltd, Bhanjaprava Building, Opp. Sriya Talkies, Unit 3, Janpath, Bhubaneshwar - 751001; Chandigarh - ICICI Bank Ltd, S.C.O., 9,10,11, Sector 9 D, Madhya Marg, Chandigarh - 160017; Chennai - ICICI Bank Ltd, 110, Prakash Presidium, Utthamar Gandhi Salai, Nungambakkam High Road, Chennai - 600034; Ernakulam - ICICI Bank Ltd, Emgee Square, M.G.Road, Ernakulam, Kochi 682035; Coimbatore - ICICI Bank Ltd, Cheran Plaza, No.1090 Trichy Road - 641018; Dehradun - ICICI Bank Ltd, Ncr Plaza, 24, New Cantt Road, Hathibarkala, Dehradun, Uttarakhand - 248001; Faridabad -ICICI Bank Ltd, Booth No. 104105, District Centre, Sector 16, Faridabad, Haryana - 121007; Ghaziabad ICICI Bank Ltd, R1/88, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001; Guntur - ICICI Bank Ltd, 5822, Pmg Complex, Lakshmipuram Main Road, Guntur Andra Pradesh - 522002; Gurgaon - ICICI Bank Ltd, Sco 18 19, Huda Shopping Centre, Sector 14, Market Complex, Gurgaon, Haryana - 122001; Guwahati ICICI Bank Ltd, Ground Floor, Shanti Complex, G.S. Road, Bhangagarh, Guwahati - 781005; Hubli -ICICI Bank Ltd, Eureka Junction, Travellers Bungalow Road, Hubli - 580029; Hyderabad - ICICI Bank Ltd, 6-2-1012, Tgv Mansions, Opp. Institution Of Engineers, Khairatabad, Hyderabad - 500004; Hissar ICICI Bank Ltd, Plot No. 5760, Kamla Palace Road, Red Square Market, Hissar, Haryana - 125001; Indore - ICICI Bank Ltd, 4,Chhoti Khajrani, Malav Parisar, Indore - 452008; Jaipur - ICICI Bank Ltd, C99, shreeji Towers, Subhash Marg, Near Ahimsa Circle, C Scheme, Jaipur - 302001; Jamshedpur - ICICI Bank Ltd, Natraj Mansion, Main Road, Bistupur, Jamshedpur Jharkhand - 831001; Jodhpur -ICICI Bank Ltd, Plot No. 10,11, Refugee ColonySindhi Colony, Near Jaljog Circle, Jodhpur - 342003; Kanpur - ICICI Bank Ltd, 16/106, J.S.Towers, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001; Kolhapur ICICI Bank Ltd, Vasant Plaza, Near Udyog Bhavan, Rajaram Road, Rajarampuri, Kolhapur - 416001; Kolkata - ICICI Bank Ltd, 22, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001; Lucknow - ICICI Bank Ltd, Shalimar Tower, 31/54 M.G.Marg, Hazratgani, Lucknow - 226001; Ludhiana - ICICI Bank Ltd, Nehru Sidhant Kender Trust Building, Feroz Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141001; Madurai -ICICI Bank Ltd, No.21,22,23, North Chitrai Street, Madurai - 625001; Mumbai - ICICI Bank Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400021; Mysore - ICICI Bank Ltd, 2950, Aishwarya Arcade, 9Th Cross, Kalidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore 570002 : Nagpur - ICICI Bank Ltd. Shriram Tower, Ground Floor, S V Patel Marg, Near NIT Building. Sadar - 440001 ; Nashik - ICICI Bank Ltd, Unit NoG19, Utility Center, Opp To Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nasik - 422002 ; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi - 110001; Nolda - ICICI Bank Ltd, K1, Senior Mall, Sec18, Nolda, Uttar Prades - 201301; Panaji - ICICI Bank Ltd, 65, Sindur Business Centre, Swami Vivekanada Road, Opp. Passport Office, Panaji Goa - 403001; Puducherry - ICICI Bank Ltd, 49 Mission Street, Puducherry - 605001; Pune -ICICI Bank Ltd, A Wing Shangrila Gardens Bund Garden Road Pune - 411001; Rajkot - ICICI Bank Ltd, Jai Hind Press Annexe, Opp. Shardabaug, Near Dharam Cinema, Rajkot - 360001; Ranchi - ICICI Bank Ltd, Main Road, Near Rattanlal Petrol Pump, Ranchi, Jharkhand - 834001; Salem - ICICI Bank Ltd, Swarnambigai Plaza, S.F.No. 6/5, Block No. 7, WardC, Omalur Main Road, Near Bus Stand, Salem, Tamilnadu - 636009; Surat - ICICI Bank Ltd, Platinum Plaza, Opp. V.T. Choksi Law College, Athwalines, Surat - 395007; Trichy - ICICI Bank Ltd, New no - 58, West Bouleward Road, Sivapoorna Complex, Trichy-620002 - 620002; Vadodara - ICICI Bank Ltd, 42, Haribhakti Society, Nr. Chakli Circle, O.P. Road, Vadodara - 390007; Vijayawada - ICICI Bank Ltd, #401127,128 129, Murali Chambers, ada - 520010; Visakhapatnam - ICICI Bank Ltd, 47-14-18, Isnar Satya Sri Complex, Road, Visakhapatnam - 530016; k Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, ai - 400021; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught, Place, Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, Jmc House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G.Road bad - 380006. ns where the ASBA facility or Bank's collection centres are not available, may send with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the te Services Limited, stating the requisite details along with Cheque/ Demand Draft , Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India, such that the same are yment of the First and Final Call Money i.e. January 24, 2022. partly paid-up equity shares of the Company (ISIN: IN9324L01011) on the Stock er 31, 2021 on account of the First and Final Call. Trading of the ₹ 10.00 fully y ("RPP Equity Shares") under the existing ISIN INE324L20013 is expected to is from the last date for making the payment of First & Final Call, i.e., within f failure to pay First & Final Call, given below: nly) p.a. will be payable for delay in payment of First & Final Call beyond January 24, educt from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of ation to the partly paid-up equity shares of the Company; and the Company currently held by you, including the amount already paid thereon are with the Articles of Association of the Company and the LOF. and Final Call Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the om the Registrar or may also download the same from the Company's website: nation.php or the Registrar's website https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney. der need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held nd Final Call Money. on the website of the Company: http://www.rppipl.com/shareholders-information.php e Services Limited ("RTA"): https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney. You may lated to the payment of First & Final Call on the helpline number +91 73388 08559 fonday to Friday between 10 AM and 5 PM). ay be addressed to: ITED, d Final Call 2. For R.P.P. Infra Projects Limited sd/-Pradeep Kumar Nath Company Secretary and Compliance Officer

PRESSMA

Dombivli (E). Phone : 0251-2448917 Mobile : 9819575111

Radha Advertising, Dombivli (E). Mobile : 9920909141 9833555898

Bajaj Publicity Dombivli (E) Miblie : 9320962437

Y.B.Kulkarni Advertising Dombivali (W). Phone : 0251 - 2480136 *Mobile* : 9821467209

Pinky Advertising, Ambernath (E), Mobile : 9322681423

Ambition Advertising, Ghatkopar (E), Phone : 24210792 / 94.

Dattaguru Advertising Ghatkopar (W), Mobile: 9870528143

K. Parth Publicity, Ghatkopar (E), Phone: 2501 3939 / 2501 2323

Sanjeevani Advtg. Kanjurmarg, LBS Marg, Phone: 022-25776168 Mobile: 9819091044

Sandip Advtg. Bhandup (W), Phone: 022-25946518 Mobile: 9820750922

Mahesh Advertising & Designing, Mulund (W), Phone : 25622469 / 25682469

Pratik Advertising, Mulund (W). Phone : 25911666 Mobile : 9821154666

Shree Mahapragya Mulund (E) Phone: 21634727 Mobile: 9930350884

Synthesis Communications Mulund (E) Phone: 25638364/65

Riyo Advertising, Ghatkopar (W), Phone: 67704000/6500 Mona 82230440exp.epapr.in

Capitalised terms not defined herein shall have the same meani			For Non-	Dwarkanagar Main Ro
	FINTECH		Resident Shareholders	Mumbai - ICICI Bank L Churchgate, Mumbai - New Delhi - 110001; A Ambawadi, Ahmedaba
Acumen at work ACUMEN at work AMBIT PRIVATE LIMITED Ambit House 449, Senapati Bapat Marg Lower Parel Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Telephone: +91 22 6623 3000 Fax: +91 22 3982 3020 E-mail: datatrust.rights@ambit.co Investor Grievance E-mail: customerservicemb@ambit.co Website: www.ambit.co Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar / Miraj Sampat SEBI Registration No.: INM000010585	KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032 Telangana, India. Telephone Number: +91 40 6716 2222 Toll Free Number: 1800 309 4001 Website: www.kfintech.com Email: dit.invitrights@kfintech.com Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221 CIN: U72400TG2017PTC117649	7. 8.	their First and Fir Registrar to the la payable at Subrar received on or be There will be no Exchanges with paid-up equity s commence within 2 weeks from Ja Please also note a. Interest @ 8. 2022 till the a b. The Compan- calls and interest	ders residing at locations hal Call Money along wit ssue: Cameo Corporate manian Building, No. 1, 0 fore the last date of paym trading of the ₹ 6.00 par effect from December hares of the Company in a period of 2 weeks nuary 24, 2022. the consequences of fi 00 % (Eight per cent only inctual date of payment; y shall be entitled to dedu rest due thereon in relation ind-up equity shares of the orfeited in accordance with
(acting in Place : Mumbai Date : January 6, 2022	On behalf of Data Infrastructure Trust Brookfield India Infrastructure Manager Private Limited the capacity of the Investment Manager of Data Infrastructure Trust) Sd/- Compliance Officer	9.	In case of non- duplicate First an http://www.rppipl.or In such a case, I and amount paya	receipt of the First an d Final Call Notice from com/shareholdersinforma however, the shareholde ble towards the First and
Data Infrastructure Trust (acting through its investment manage conditions and other considerations, a Rights Issue of its Units Draft Letter of Offer is available on the website of the BSE at Manager to the Issue, i.e. Ambit Private Limited at <u>www.ambit.co</u> of risk, and for details relating to the same, should refer to the s the Letter of Offer, when available. Bidders should not rely on the The Rights Entitlements and Units have not been and will not amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities I within the United States of America or the territories or possess exempt from the registration requirements of the Securities Act Offer are being offered in India, but not in the United States. The	ger) is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market and has filed the Draft Letter of Offer with the Stock Exchange. The <u>www.bseindia.com</u> , the Trust at <u>www.towerinfratrust.com</u> and Lead . Investors should note that investment in the Units involves a degree ections entitled "Risk Factors" and "Forward-Looking Statements" of	10	or on the website also seek clarifica or +91 93420 729 All the correspond CAMEO CORPO Unit: R.P.P. Infra Subramanian Buil	Road, Chennai 600 002. 60390 To 394 29
	the Draft Letter of Offer should not be forwarded to or transmitted in	10 M C 10 C 10 C	e: Erode 2 : January 06, 202	2

जनसत्ता, 7 जनवरी, 2022 5

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Limited Vs

Mushid Hussain CNR NO: PBLD03-002225-2019

Next Date : 09-02-2022 Notice To, Mushid Hussain S/o Not known Address- Hno 276 Saif Khan Sarai, Teh, Sambhal Muradabad Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 9-02-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and

determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.g ov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC_Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Limited Vs

Mohammad Hafeez CNR NO: PBLD03-002243-2019 Next Date : 09-02-2022 Notice To, Mohammad Hafeez S/o known address- hno 645 hindupura Khera Ashi Ashink Sambh, U.P. Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 9-02-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the

date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your abs for details logon to: https://highcou ov.in/?trs=district_notice&district=l

JMIC Luc

बोडीआर बिल्डकॉन लि CIN-L70100DL2010PLC200 पंजी. कार्यालयः 31, जंगपुरा रोड, भे नई दिल्ली–110014 कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 21, रिंग तीसरा तल, फ्रान्ट पोर्शन, लाजपत नग दिल्ली-110024 Tel.: 011-2647 7771 Website: www.bdrbuildcon. E-mail: info@bdrbuildcon.c सुचना सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए सोमवार, 17 जनवरी, 2022 को 21, रिंग रोड, तीसरा तल, फ्रान्ट पोर्शन, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 में 1.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी। उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.bdrbuildcon.com तथा साथ ही एक्सचैंज स्टॉक की वेबसाईट https://www.nseindia.com/emerge itp/ पर उपलब्ध होगी। बीडीआर बिल्डकॉन के लिये हस्ता./ स्थानः नई दिल्ली राजेश गुप्ता तिथिः 07.01.2022 प्रबंध निदेशक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकारः उत्तरी क्षेत्र पीव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की नियमावली. 2014 के नियम 30 के उप-निय तथा

मै. हरटेक पावर प्राईवेट लिमिटेड जिसके पंर्ज सेक्टर-37-सी, चंडीगढ़-160036 में है, के 1

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 को आयोजित असा अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह व का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत **प्रपत्र दाखिल करें** अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजीकृत कार्यालय का पता: बूथ नं. 195, सेक्टर-37-सी, चंडीगढ़-160036 मै. हरटेक पावर प्राईवेट लिमिटेड के लिए हरटेक सिंह (निदेशक) स्थानः चंडीगढ

तिथिः 7.1.2022

OSBI

ोठ, दिल्ली के समक्ष	2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	<u>12</u> जनवरी
उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन)	3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक	आरओसी-
ाम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में		निगमित/पंजीकृत है	
	4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड	U630001
		लाएबिलिटी पहचान संख्या	
ोकृत कार्यालय का पताः बूथ नं. 195,	5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान	पंजीकृत क
मामले में		कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	110019
र्ज ''चंडीगढ़ संघ क्षेत्र'' से ''पंजाब राज्य''		परिसमापन शुरू होने की तिथि	16 फरवरी
	7.	एनआरआरए के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण	7 जनवरी,
के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए		की तिथि	
धारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के	8.	अधोलिखित नियमों एवं शर्तों पर कम्पनी की नॉट-रेडिली	, ,
। के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी		रिप्लायजेवल परिसम्पत्तियों (''एनआरआरए'') का	
		एसाइन्मेन्ट	तथा ''जो
कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने	9.	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता के मानक	उसे https

। कॉर्पोरेट ऋणधारक

जा सकती है . प्रकाशन की तिथि तिथि: 7.1.2022 स्थानः नई दिल्ली

अवधि

11. अभिरूचि की अभिव

आभरूगच का अ	ाभव्याक्त क लिए आमंत्रण	
(भारत दिवाला तथा दिवालिय	ा मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन,	VIS
2020 के विनि	यमन 37 ए के अंतर्गत)	Reg
	बंधित विवरण	Corp. Of
का नाम	मै. वन वर्ल्ड ट्रैवल सॉल्यूशन्स लिमिटेड	Pha
के निगमन की तिथि	12 जनवरी. 2011	Ph.: 011-4
नसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक	आप शोगी, जर्म दिल्ली	CIN: I
गरायम जारागरा यमगारेट म्हणजारयम		Email: vis@vis
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Public Notic
	U63000DL2011PLC212486	Notice is he
संख्या		201 of t
	पंजीकृत कार्यालयः 506, मनीशा बिल्डिंग, 75, 76, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–	12.00 COLUMN
हो) का पता	110019	application
नी तिथि	16 फरवरी 2021	the Cent
् अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण	7 जनवरी, 2022	Corporate
		pursuant to
एवं शर्तों पर कम्पनी की नॉट-रेडिली	आईवीसी, 2016 की धारा 66 के अंतर्गत दाखिल आवेदन की कार्यवाही के	Contract Contract
सम्पत्तियों (''एनआरआरए'') का	अंतर्गत परिसम्पत्तियों का एसइन्मेन्ट ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है''	and other
	तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर किया जाएगा।	Companies
त लाग होने वाले अयोग्यता के मानक	उसे https://www.cmasandeepgoel@gmail.	Vikas Mehr
	com से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।	Director -
र्धलय में टप्नावेजों की निरीक्षण की	7 जनवरी, 2022 से 14 जनवरी, 2022	period of t
חוצות היו איז היואר היוארי היואר	, 111(), 2022 (1 14 114(), 2022	as approve
यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	18 जनवरी. 2022 को ईमेल द्वारा जिस के साथ ही साथ हार्ड कॉपी	
	परिसमापक के कार्यालय में 18 जनवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. तक	The above
	पहुंच जाना चाहएि।	information
पता तथा ईमेल जहां ईओआई जमा की	सीएमए संदीप गोयल	complying
	पंजीकृत कार्यालयः 410, प्रताप भवन, 5–बहादुरशाह जफर मार्ग, नई	
	दिल्ली–110002,	
	पंजीकृत ईमेलः https://www.cmasandeepgoel@gmail.	
	com/ केस ईमेलः oneworlrp@gmail.com	Place : New
	8 जनवरी, 2022	Dated : 06-0
	कृत्ते, वन वर्ल्ड ट्रैवल सॉल्यूशन्स लिमिटेड	
	- · · · · ·	
	सीएमए संदीप गोयल परिसमापक	2
	पारसमापक ( IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583)	
<del></del>		
ईमेलः	1 0 0	
	मोबाईल: 9810741090/ 8178163337	

RPp

अभिरूचि को अभिव्यक्ति के लिए आमंत्र

LS FINANCE LTD. agd. Off. : 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065	केनरा बैंक 🚓 Canara Bank	शाखाः- कुंडली ई-मेल cb3236@canarabank.com
Off: 90, Okhla Industrial Estate,	कब्जा सूचना [धारा	13(4)]
hase III, New Delhi-110020 -466566666, Fax: 011-46656699 L65910DL1986PLC023129 visinance.com, Websile www.visinance.com tice for kind attention of the members hereby given that pursuant to Section the Companies Act, 2013, an on is being made by the Company to otral Government (Ministry of a Affairs) for seeking its approval to Section 196 read with Schedule V er applicable provisions of the es Act 2013, for appointment of Mr. hrotra (DIN: 06476150) as Managing - International Operations for a three years effective from the date	चूंकिः केनरा चैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोह च पुनर्जनमांण तथा प्रतिभूति व्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) और प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करि अंदर नोटिस में वर्षित राशि 3079969.20 रुपए (केवल तीस र पैसे) को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कर्जदार मैं, औ दिनांक 16.03.2020 को डिमांड नोटिस जारी किया था। कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर का सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधरी ने कथित नियमों 2002 अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन 30,0 उस ब्याज के लिए केवया बैंक के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(8)	स्ताधरी ने वित्तीय सम्पलियों के प्रतिभूतिकरण 2002 का अधिनियम 54) (यहां इसके बाद के नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित यत नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के ताख उनासी हजार नी उनसत रुपए और बीस <b>गणेश रोडल्साइंन्स (मालिक विजेन्द्र)</b> को तंदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्हारा के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए कथित हरते हुए दिनांक 06 जनवारी 2022 को वहां (सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्हारा x0,000/- रुपए (केवल तीस लाखा) और
ed by Central Government.	को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।]	
ve communication is intended for	अचल संपत्तियों का	। विवरण
on and benefit of all members besides	अलीपुर जिला, उत्तरी दिल्ली- 110040 के बकोली की विस्तारित ला	ाल दौरा आयादी में स्थित 1/4 हिस्से में से कुल
g with applicable directives.	1660 वर्ग गज की भूमि धारक खसरा में, 35//43/2(2-18), 44/2	전화 경험은 바람이 집에 앉아 있다. 이 것 이 것 같은 것 같아요. 이 것 같아요. 이 것 같아요.
By order of the Board of Directors	( 0-07), 32 (0-04), 33( 0-07) 34(0-07), 35 (0-03)	
For VLS Finance Ltd. H. Consul	से शहरी घर रकवा 1660 वर्ग गज से युक्त संपत्ति के सभी अनिवाग	
w Delhi Company Secretary	चौड़ा, दक्षिण की ओरः रास्ता 24'9" चौड़ा, पूर्व की ओरः अन्य प्ल	
-01-2022 M. No A11183	दिनोकः 06.01.2022 स्थानः कुंडली	प्राधिकृत अधिकारी

# **R.P.P. INFRA PROJECTS LIMITED**

Registered Office: S.F. No. 454, Raghupathynaiken Palayam, Railway Colony (Post), Poondurai Road, Erode - 638 002, Tamil Nadu, India Corporate Office: MKM Chambers, No. 42, Third Floor, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600.034, Tamil Nadu, India Contact Person: Pradeep Kumar Nath; Tel: +91 424 2284077; Facsimile: +91 424 2282077

E-mail: rightsissue@ropipl.com: Website: www.ropipl.com: Corporate Identification Number: L45201TZ1995PLC006113

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities of the Company. All capitalized terms used and not defined here shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 15, 2021 filed with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited, and with SEBI for information and dissemination purposes.

#### FOR THE ATTENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAID UP SHARES (ISIN IN9324L01011) HELD AS ON RECORD DATE I.E. MONDAY, JANUARY 03, 2022

#### FIRST AND FINAL CALL NOTICE

- In terms of the Letter of Offer dated September 15, 2021 ("LOF"), the Company had issued upto 1,60,00,000 partly paid-up equity shares (including 17,70,000 equity shares reserved for the warrant holders) of a face value of ₹ 10 each and allotted 1,42,30,000 partly paid up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Rights Equity Shares") for cash at a price of ₹ 30/- per Rights Equity Share (including securities premium of ₹ 20/- per Rights Equity Share) on rights basis to the eligible equity shareholders of the Company
- An amount of ₹ 18 per Rights Equity Share (comprising ₹ 6 towards face value and ₹ 12 towards securities premium) was paid on application and balance monies was payable in one or more subsequent call(s).
- The Board of Directors of the Company at its meeting held on December 22, 2021 made the following first and final call on the **Rights Equity Shares**
- First & Final call of ₹ 12 per Rights Equity Share (comprising ₹ 4 towards face value and ₹ 8 towards securities premium) payable from Monday, January 10, 2022 to Monday, January 24, 2022, both days inclusive ("First & Final Call");
- The Company has fixed Monday, January 3, 2022 as the record date ("Call Record Date") for the purpose of determining the holders of the partly paid-up equity shares ("Eligible Shareholders") to whom the notice for the First & Final Call (the "First & Final Call Notice") has been sent. The Company has intimated the Call Record Date to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (collectively the "Stock Exchanges") on December 22, 2021.
- Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the LOF, the First & Final Call Notice along with the instructions, ASBA Form and Payment Slip has been sent in electronic mode to the holder of partly paid up equity shares whose e-mail addresses are registered with the Company, or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on Call Record Date. Further, physical copy of the First & Final Call Notice along with the instructions, ASBA Form and Payment Slip, has been dispatched through permitted modes at registered address of those shareholders: a) who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or DP; or b) who

#### भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आरित रिकवरी शाखा-।, रिटेल प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

**DIN: 01324320** 

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं** गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते** के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतू उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते/कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा की तारीख	बकाया राशि
		सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ और श्रीमती नीरज कुलश्रेष्ठ फ्लैट नं. 1204, 12वां तल, टॉवर—एफ, अजनारा, ग्रान्ड हरिटेज़, प्लॉट नं. GH-01/B सैक्ट—74, ग्रेटर नोएडा, यू.पी—201301 में स्थित, सभी अधिकारों, शीर्षक और हित, सुविधा, विशेषाधिकार और सम्पत्ति का स्वामित्व सभी के साथ । फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर बनी संरचना, जो आनुपातिक अधिकारों के साथ है। सामान्य रास्ता क्षेत्रों, सीढ़ियों और अन्य सामान्य सुविधाएं जो वहां उपलब्ध हैं, यदि कोई हो	03-01-2022	<b>ए. 1,23,22,956/-</b> दिनांक 27.09 2021 तक और सविंदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज और उपरोक्तानुसार राशि पर आकस्मिक खर्चे, लागत इत्यादि
	श्री अवधेश मित्तल और श्रीमती रीना मित्तल	सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री अवधेश मित्तल और श्रीमती रीना मित्तल रिहायशी बिल्डिंग, सी–6, प्रथम और तृतीय तल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली–110016 में स्थित सभी अधिकारों, शीर्षक और हित, सुविधा, विशेषाधिकार और सम्पत्ति का स्वामित्व सभी के साथ । फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर बनी संरचना, जो आनुपातिक अधिकारों के साथ है। सामान्य रास्ता क्षेत्रों, सीढ़ियों और अन्य सामान्य सुविधाएं जो वहां उपलब्ध हैं, यदि कोई हो	03-01-2022	<b>ए. 5,90,44,861/-</b> दिनांक 25.10. 2021 तक और सर्विदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज और उपरोक्तानुसार राशि पर आकरिमक खर्ये, लागत इत्यादि

प्ररूप संख्या यूआरसी–2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राथिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में} सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉपोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोठ- 122050 को एक आवेदन पंडह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की 'मॉडनिंटिव कंस्ट्रक्शंस एलएलपीः (एलएलपीनः एएओ-3945)'' एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय

XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए। कंपनी के मुल उद्देशय इस प्रकार हैं:

क) बिल्डरों, संपत्ति डेवलपर्स, इंजीनियरिंग ठेकेदारों, सिविल, मैकेनिकल, और श्रम ठेकेदारों, भवन और निर्माण इंजीनियरों, सलाहकारों, डीलरों के रूप में व्यवसाय को जारी रखने के लिए, आयालकों, निर्यातकों, और पूर्वनिर्मित और प्रीकास्ट घरों के निर्माण, सामग्री, उपकरण, उपकरण, उपकरण, मशीनरी, और धातु के बर्तन इसके साथ या आकस्मिक रूप से और इस तरह के अनुकूल शर्तों पर मरम्मत को बदलने. ध्वस्त करने. हटाने या मरम्मत करने के लिए भी और सही समझें तो डिजाइनरों, रियल एस्टेट मालिकों, लेआउट प्रमोटरों के व्यवसाय को जारी रखने के लिए और अचल संपत्ति दलालों, रियाल्टारों और एजेंटों, और अन्य सेवा प्रदाताओं के रूप में भी कार्य करने के लिए और किसी भी अन्य व्यवसाय को जारी रखने के लिए जो प्रथागत रूप से. आमतीर पर और आसानी से भारत के भीतर या बाहर और खरीद के लिए अधिग्रहण, पट्टे पर या बदले में या वि भवनों,

(This is a public announcement for information purposes only and is not an announcement for the Letter of Offer. Not for publication or distribution, directly or indirectly, outside India) PUBLIC ANNOUNCEMENT

# DATA INFRASTRUCTURE TRUST

(formerly, Tower Infrastructure Trust)

(Set-up as a Trust on January 31, 2019 and registered as an infrastructure investment trust under the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 ("InvIT Regulations"), originally under the name 'Tower Infrastructure Trust', on March 19, 2019, having registration number IN/InvIT/18-19/0009 at Mumbai. Subsequently, the name of the Trust was changed to 'Data Infrastructure Trust' upon issuance of fresh Certificate of Registration dated October 8, 2021 under the InvIT Regulations)

Principal Place of Business: Unit 1, 4th Floor, Godrej BKC, Plot No. C-68, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 6600 0700; Compliance Officer: Mr. Inder Mehta E-mail: secretarial@summitdigitel.com; Website: www.towerinfratrust.com

TRUSTEE	SPO	ISORS	INVESTMENT MANAGER	
	BROOKFIELD SPONSOR	RELIANCE SPONSOR	INVESTMENT MANAGER	
Axis Trustee Services Limited	BIF IV Jarvis India Pte. Ltd.	Reliance Industrial Investments and Holdings Limited	Brookfield India Infrastructure Manager Private Limited (formerly, WIP (India) Private Limited)	

ISSUE OF UP TO [•] UNITS OF DATA INFRASTRUCTURE TRUST ("DIT" OR "TRUST" AND SUCH UNITS, THE "UNITS"). FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER UNIT (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 3,180 MILLION* TO THE ELIGIBLE UNITHOLDERS (AS DEFINED HEREINAFTER) ON A RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [+] LOTS FOR EVERY [+] LOTS (EACH LOT COMPRISING [•] UNITS) HELD BY THEM ON THE RECORD DATE, BEING [•] (THE "ISSUE") IN ACCORDANCE WITH THE INVIT REGULATIONS AND THE SEBI RIGHTS ISSUE GUIDELINES. THE RECORD DATE IS [+]. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION ENTITLED "THE ISSUE" ON PAGE 15 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

*The size of the Issue is the amount approved by the Data InvIT Committee of the Board of Directors of the Investment Manager on December 28, 2021. Further, the size of the Issue shall be subject to finalisation of Allotment in the Issue.

This public announcement is being made in compliance with paragraph 3.5 of the Circular bearing number SEBI/HO/DDHS/ DDHS/CIR/P/2020/10 dated January 17, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), entitled Guidelines for Rights Issue of Units by a listed Infrastructure Investment Trusts (InvITs), read with the circular bearing number SEBI/HO/ DDHS/DDHS/CIR/P/2020/36 dated March 13, 2020, issued by the SEBI, entitled the Amendments to guidelines for rights issue, preferential issue and institutional placement of units by a listed InvIT (together, the "SEBI Rights Issue Guidelines") to inform the public that the Trust is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Units on a rights basis and has filed Draft Letter of Offer dated January 5, 2022 (the "Draft Letter of Offer") with SEBI and BSE Limited ("BSE") on January 6, 2022 in relation to the Issue.

Pursuant to paragraph 3.3 of the SEBI Rights Issue Guidelines, the Draft Letter of Offer filed shall be made public, for comments, if any, for a period of seven working days from the date of such filing and shall be available on the websites of the Stock Exchange, being, www.bseindia.com. Furthermore, pursuant to paragraph 3.4 of the SEBI Rights Issue Guidelines, the Draft Letter of Offer will also be available on the website of the Trust at www.towerinfratrust.com and Lead Manager to the Issue, i.e. Ambit Private Limited at www.ambit.co All members of the public are hereby invited to provide their comments on the Draft Letter of Offer to the Compliance Officer of the Trust or the Lead Manager. All comments must be received by the Trust or the Lead Manager on or before 5:00 p.m. (IST) on the 7th working day from the aforementioned date of filing the Draft Letter of Offer with BSE (being, January 14, 2022).

Investments in Units involve a high degree of risk and Bidders should not invest in the Issue unless they are prepared to take the risk of losing all or part of their investment. For details see section entitled "Risk Factors" of the Letter of Offer and other disclosures included in the Letter of Offer, when available, before making an investment decision relating to the Issue. Bidders should not rely on the Draft Letter of Offer for any investment decision. Each Bidder is advised to consult its own advisors about the consequences of an investment in the Rights Entitlements and the Units issued pursuant to the Letter of Offer. The Rights Entitlements and the Units being offered in the Issue have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Letter of Offer and the Letter of Offer. Admission of the Units to be issued pursuant to the Issue for trading on the Stock Exchange should not be taken as an indication of the merits of the Trust or of the Units.

have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the First & Final Call Notice on January 06, 2022. The specimen copy of the First & Final Call Notice along with the instructions, ASBA Form and Payment Slip are also available on the Company's website at <a href="http://www.rppipl.com/shareholders-information.php">http://www.rppipl.com/shareholders-information.php</a>.

The First & Final Call payment can be made by you by opting any one of following modes, namely, (a) Online ASBA (b) Physical ASBA, (c) 3-in-1 type account, (d) R-WAP portal (https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney), and (e) Deposit of cheques / demand drafts with the 'Collection Centers' of the Escrow Collection Banks along with payment slip. Visit https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=35 to refer to the list of existing SCSBs (for points (a) and (b) above). Please read instructions given along with this First and Final Call Notice before making payment of the First & Final Call.

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated December 8 2020, Eligible Shareholders can also make the payment of the First & Final Call through the facility of linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts), provided by some of the registered brokers. Please check with your respective broker for availability of the 3-in-1 type account facility and the process to be followed. The Company, the Lead Manager or the RTA will not be responsible for non-availability of this payment mode to the Eligible Shareholders from their respective brokers.

Further, in accordance with SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020. read with SEBI circulars bearing reference numbers SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020, SEBI/HO/CFD/ DIL1/CIR/P/2021/13 dated January 19, 2021, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552 dated April 22, 2021 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/633 dated October 1, 2021 (the "SEBI Relaxation Circulars"), Resident Eligible Shareholders may pay the First & Final Call electronically through the R-WAP portal: https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney. Payment may be made through net banking or UPI. Do note that R-WAP is only an additional option and not a replacement of ASBA and R-WAP facility should be utilized only in the event that shareholders are not able to utilize the ASBA facility for making the payment despite their best efforts. The Company and the RTA shall not be responsible if the application is not successfully submitted or if it is rejected during the process while using the R-WAP facility. NON-RESIDENT ELIGIBLE SHAREHOLDERS ARE NOT ELIGIBLE TO APPLY THROUGH THE R-WAP PORTAL.

In case the Eligible Shareholders chose to pay through Cheque/DD, duly filled up Payment Slip along with the cheque or demand draft must be presented at ICICI Bank Limited at the following locations on or before January 24, 2022:

For Resident Agra - ICICI Bank Ltd, No. 6, 8-13, Ground Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra - 282002; Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, Jmc House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G.Road Ambawadi, Shareholders Ahmedabad - 380006; Amritsar - ICICI Bank Ltd, 361, M.C International The Mall Amritsar, Punjab - 143001; Bangalore - ICICI Bank Ltd, 1, Shobha Pearl, Commissariat Road, Off M G Road, Ground Floor, Bangalore - 560025; Belgaum - ICICI Bank Ltd, 14, Khanapur Road, Rpd Cross, Tilakwadi, Belgaum - 590006; Bharuch - ICICI Bank Ltd, Blue Chip Sanitorium Compound, Sevashram Road, Panch Batti, Bharuch - 392001; Bhavnagar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 2569, Ground Floor, Ratnadeep Complex, Opp. Central Salt Research Institute, Waghawadi Road, Bhavnagar Gujarat - 364002; Bhopal ICICI Bank Ltd, Alankar Palace, Plot No.li, Zone li, M P Nagar, Bhopal, Mp - 462011; Bhubaneswar ICICI Bank Ltd, Bhanjaprava Building, Opp. Sriya Talkies, Unit 3, Janpath, Bhubaneshwar - 751001; Chandigarh - ICICI Bank Ltd, S.C.O., 9,10,11, Sector 9 D, Madhya Marg, Chandigarh - 160017; Chennai - ICICI Bank Ltd, 110, Prakash Presidium, Utthamar Gandhi Salai, Nungambakkam High Road, Chennai - 600034; Ernakulam - ICICI Bank Ltd, Emgee Square, M.G.Road, Ernakulam, Kochi -682035; Coimbatore - ICICI Bank Ltd, Cheran Plaza, No.1090 Trichy Road - 641018; Dehradun - ICICI Bank Ltd, Ncr Plaza, 24, New Cantt Road, Hathibarkala, Dehradun, Uttarakhand - 248001; Faridabad -ICICI Bank Ltd, Booth No. 104105, District Centre, Sector 16, Faridabad, Haryana - 121007; Ghaziabad ICICI Bank Ltd, R1/88, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001; Guntur - ICICI Bank Ltd, 5822, Pmg Complex, Lakshmipuram Main Road, Guntur Andra Pradesh - 522002; Gurgaon - ICICI Bank Ltd, Sco 18 19, Huda Shopping Centre, Sector 14, Market Complex, Gurgaon, Haryana - 122001; Guwahati - ICICI Bank Ltd, Ground Floor, Shanti Complex, G.S. Road, Bhangagarh, Guwahati - 781005; Hubli -ICICI Bank Ltd, Eureka Junction, Travellers Bungalow Road, Hubli - 580029; Hyderabad - ICICI Bank Ltd, 6-2-1012, Tgv Mansions, Opp. Institution Of Engineers, Khairatabad, Hyderabad - 500004; Hissar ICICI Bank Ltd, Plot No. 5760, Kamla Palace Road, Red Square Market, Hissar, Haryana - 125001; Indore - ICICI Bank Ltd, 4,Chhoti Khajrani, Malav Parisar, Indore - 452008; Jaipur - ICICI Bank Ltd, C99, shreeji Towers, Subhash Marg, Near Ahimsa Circle, C Scheme, Jaipur - 302001; Jamshedpur - ICICI Bank Ltd, Natraj Mansion, Main Road, Bistupur, Jamshedpur Jharkhand - 831001; Jodhpur -ICICI Bank Ltd, Plot No. 10,11, Refugee ColonySindhi Colony, Near Jaljog Circle, Jodhpur - 342003; Kanpur - ICICI Bank Ltd, 16/106, J.S.Towers, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001; Kolhapur ICICI Bank Ltd, Vasant Plaza, Near Udyog Bhavan, Rajaram Road, Rajarampuri, Kolhapur - 416001; Kolkata - ICICI Bank Ltd, 22, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001; Lucknow - ICICI Bank Ltd, Shalimar Tower, 31/54 M.G.Marg, Hazratganj, Lucknow - 226001; Ludhiana - ICICI Bank Ltd, Nehru Sidhant Kender Trust Building, Feroz Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141001; Madurai -ICICI Bank Ltd, No.21,22,23, North Chitrai Street, Madurai - 625001; Mumbai - ICICI Bank Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400021; Mysore - ICICI Bank Ltd, 2950, Aishwarya Arcade, 9Th Cross, Kalidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore 570002 ; Nagpur - ICICI Bank Ltd, Shriram Tower, Ground Floor, S V Patel Marg, Near NIT Building, Sadar - 440001 ; Nashik - ICICI Bank Ltd, Unit NoG19, Utility Center, Opp To Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nasik - 422002 ; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi - 110001; Noida - ICICI Bank Ltd, K1, Senior Mall, Sec18, Noida, Uttar Prades - 201301; Panaji - ICICI Bank Ltd, 65, Sindur Business Centre, Swami Vivekanada Road, Opp. Passport Office, Panaji Goa - 403001; Puducherry - ICICI Bank Ltd, 49 Mission Street, Puducherry - 605001; Pune -ICICI Bank Ltd, A Wing Shangrila Gardens Bund Garden Road Pune - 411001; Rajkot - ICICI Bank Ltd. Jai Hind Press Annexe. Opp. Shardabaug. Near Dharam Cinema, Raikot - 360001; Ranchi - ICICI Bank Ltd, Main Road, Near Rattanlal Petrol Pump, Ranchi, Jharkhand - 834001; Salem - ICICI Bank Ltd, Swamambigai Plaza, S.F.No. 6/5, Block No. 7, WardC, Omalur Main Road, Near Bus Stand, Salem, Tamilnadu - 636009; Surat - ICICI Bank Ltd, Platinum Plaza, Opp. V.T. Choksi Law College, Athwalines, Surat - 395007; Trichy - ICICI Bank Ltd, New no - 58, West Bouleward Road, Sivapoorna Complex, Trichy-620002 - 620002: Vadodara - ICICI Bank Ltd, 42, Haribhakti Society, Nr. Chakli Circle, O.P. Road, Vadodara - 390007; Vijayawada - ICICI Bank Ltd, #401127,128 129, Murali Chambers, M.G.Road, Vijayawada - 520010; Visakhapatnam - ICICI Bank Ltd, 47-14-18, Isnar Satya Sri Complex,

में या किसी अन्य वैध तरीके से किसी भी क्षेत्र, भूमि,	Capitalised terms not defined herein shall have the same mean	ing ascribed to such terms in the Draft Letter of Offer.		0	Dwarkanagar Main Road, Visakhapatnam - 530016;
भवनों, संरचनाओं और इसे खाते में बदलने के लिए, इसे विकसित करना, निपटाना या इसे बनाए रखना और किराये के लिए दूर देना। ख) इंटीरियर, ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, अर्थ ठेकेदारों के		REGISTRAR TO THE ISSUE		For Non- Resident Shareholders	Mumbai - ICICI Bank Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400021; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught, Place, New Delhi - 110001; Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, Jmc House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G.Road Ambawadi, Ahmedabad - 380006.
व्यवसाय को जारी रखना और निर्माण, संशोधन, मरम्मत, परिवर्तन, निर्माण, हटाने, पुनर्सज्जीकरण, रीडिजाइनिंग, विस्तार, सुथार और सिविल कार्य की डिजाइनिंग, जो भी उपयोग के लिए निर्माण, सड़क, पहुंच सड़कों, सड़कों, इलकों, चौकों, पार्कों, उद्यान, मूर्तियों, पार्किंग स्थानों, पुलों, से संबंधित ठेके और उपअनुबंध शुरू करना, बांध, वाटरकोर्स और जलाशय, सुरंग, मिट्टी, सीवर, टैंक, नालियां, सीवेज, लाइटसउस, टावर, ट्रांसमिजन टावर, पाइपलाइन, भूमिंगत केबल, रेलवे ट्रैक, रेलवे साइडिंग, रनवे शिपयार्ड, स्टॉकयार्ड, पुलियों, चौनल चाहे टर्नकी या अम अनुबंधों पर या अन्य आधार पर हों । म) सडायता सेवाओं की स्थापना औरध्या संवर्धन के व्यवसाय को जारी रखना चाहे सूचना प्रीधोगिकी- सधम हो या अन्यधा शामिल हो, लेकिन लेसमेंट सेवाओं, उद्यम सामग्री और डेटा सेवाओ, वेब	AMBIT PRIVATE LIMITED Ambit House 449, Senapati Bapat Marg Lower Parel Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Telephone: +91 22 6623 3000 Fax: +91 22 3982 3020 E-mail: datatrust.rights@ambit.co Investor Grievance E-mail: customerservicemb@ambit.co Website: www.ambit.co Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar / Miraj Sampat SEBI Registration No.: INM000010585	KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032 Telangana, India. Telephone Number: +91 40 6716 2222 Toll Free Number: 1800 309 4001 Website: www.kfintech.com Email: dit.invitrights@kfintech.com Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M Murali Krishna SEBI Registration No.: INR00000221 CIN: U72400TG2017PTC117649	7.	their First and Fir Registrar to the Is payable at Subrar received on or bel There will be no Exchanges with paid-up equity si commence withi 2 weeks from Jan Please also note a. Interest @ 8.0 2022 till the a b. The Company calls and interest	ders residing at locations where the ASBA facility or Bank's collection centres are not available, may send nal Call Money along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the ssue: Cameo Corporate Services Limited, stating the requisite details along with Cheque/ Demand Draft manian Building, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India, such that the same are fore the last date of payment of the First and Final Call Money i.e. January 24, 2022. trading of the ₹ 6.00 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN: IN9324L01011) on the Stock effect from December 31, 2021 on account of the First and Final Call. Trading of the ₹ 10.00 fully thares of the Company ("RPP Equity Shares") under the existing ISIN INE324L20013 is expected to in a period of 2 weeks from the last date for making the payment of First & Final Call, i.e., within nuary 24, 2022. the consequences of failure to pay First & Final Call, given below: 00 % (Eight per cent only) p.a. will be payable for delay in payment of First & Final Call beyond January 24, actual date of payment; ny shall be entitled to deduct from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of the thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and aid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon are prefeted in accordance with the Articles of Association of the Company and the LOF.
सेवाओं, परिवहन, बैंक ऑफिस संचालन, जनशक्ति आपूर्ति, सूचना प्रणालियों के रखरखाव और उपरोक्त सेवाओं और व्यवसायों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने तक सीमित नहीं है । 3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिसिपि का निरीक्षण सी–150 सैक्टर-15 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, यूपी-201301 स्थित	On behalf of Data Infrastructure Trust Brookfield India Infrastructure Manager Private Limited (acting in the capacity of the Investment Manager of Data Infrastructure Trust) Place : Mumbai Date : January 6, 2022			In case of non- duplicate First an http://www.rppipl.o In such a case, I and amount payal	preceipt of the First and Final Call Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the or the com/shareholders from the Registrar or may also download the same from the Company's website: com/shareholdersinformation.php or the Registrar's website https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney. however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held ble towards the First and Final Call Money. Final Call are available on the website of the Company: <u>http://www.rppipl.com/shareholders-information.php</u>
कार्यालय में किया जा सकता है। 4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आयेदन पर आपत्ति है तो यह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), षारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोठ- 122050, पर भेज दे तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जैसा कि बिंदू सख्या 3 में उल्लेखित पते पर भी भेज दें। आयेदको के नाम मॉडर्निटिव कंस्ट्रक्शंस एलएलपी की ओर से	conditions and other considerations, a Rights Issue of its Units Draft Letter of Offer is available on the website of the BSE at Manager to the Issue, i.e. Ambit Private Limited at <u>www.ambit.co</u> of risk, and for details relating to the same, should refer to the s the Letter of Offer, when available. Bidders should not rely on th The Rights Entitlements and Units have not been and will no amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities I within the United States of America or the territories or posses exempt from the registration requirements of the Securities Act Offer are being offered in India, but not in the United States. The circumstances is to be construed as, an offering of any Units or	t be registered under the United States Securities Act of 1933, as laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred sions thereof (the "United States" or "U.S."), except in a transaction t. The Rights Entitlements and Units referred to in the Draft Letter of offering to which the Draft Letter of Offer relates is not, and under no r Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation	11.	or on the website also seek clarifica or +91 93420 729 All the correspond <b>CAMEO CORPOI</b> <b>Unit:</b> R.P.P. Infra I Subramanian Buil No.1 Club House <b>PHONE:</b> 044-284 <b>FAX:</b> 044-284601 <b>E-mail:</b> investor@	e of Cameo Corporate Services Limited ("RTA"): <u>https://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney</u> . You may ations on any query related to the payment of First & Final Call on the helpline number +91 73388 08559 388 (operational from Monday to Friday between 10 AM and 5 PM). dence in this regard may be addressed to: <b>RATE SERVICES LIMITED</b> , Projects Ltd First and Final Call Iding, Road, Chennai 600 002. 40390 To 394 129 @cameoindia.com For R.P.P. Infra Projects Limited sd/-
हस्ता/- तिथिः 06.01.2022 1. राजीव शर्मा (नामित साझेदार) स्थानः नीएडा 2. संजय गर्ग (नामित साझेदार)	therein of an offer to buy any of the said securities. Accordingly, or into the United States at any time.	, the Draft Letter of Offer should not be forwarded to or transmitted in		e: Erode a : January 06, 202	22 Company Secretary and Compliance Officer PRESSMAN

E Home

💾 🛛 Erode 🛇

09: news

Daily Thanthi ePaper

∕╝║



SMM 👗



	O.P. Road, Vadodara - 390007; Vijayawada - ICICI Bank Ltd, #401127,128 129, Murali Chambers, M.G.Road, Vijayawada - 520010; Visakhapatnam - ICICI Bank Ltd, 47-14-18, Isnar Satya Sri Complex, Dwarkanagar Main Road, Visakhapatnam - 530016;	பில் பில் பில் பில் பில் பில் பில் பில்	அரு, ங.எங்குவானம், தசனம் நடராஜ முதனயாள என்பவாகளாடயருந்த வகுலிக்கும் பொருட்டு, கடன் வழங்கிய வங்கிக்கு ஆட்டானப்படுத்தப்பட ஆக்கபூர்வ கவாதீனம் செய்து கொண்ட கீழ்க்கண்ட அசையா
For Non- Resident Shareholders	Mumbai - ICICI Bank Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400021, New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught, Place, New Delhi - 110001; Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, Jmc House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G.Road Ambawadi, Ahmedabad - 380006.	<b>ரை 5 பே</b> P4, ஸ்டே: பாங்க் ரோடு, P.S.பாங்க் அருகில், ஈரோடு-638001. வங்கியிடம் அடமானம் வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்கள் விற்பனை	சொத்தினை 10.02.2022 தேதியன்று விற்பனை செய்யவுள்ளார் என்பன குறிப்பாக கடன்தாரர்(கள்) மற்றும் உத்தரவாதமனித்தவர்(கள்) மற்று பொதுமக்களுக்கு இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தெரியப்படுத்தப்படுகிறத இந்த சொத்துக்கள் "எங்கு உள்ளதோ உள்ளபடி', 'என்ன உள்ளதே உள்ளபடி : 'எப்படியன்தோ உள்ள கையலில்' விற்கப்படும்.
their First and F Registrar to the payable at Subr received on or b	Iders residing at locations where the ASBA facility or Bank's collection centres are not available, may send inal Call Money along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the Issue: Carneo Corporate Services Limited, stating the requisite details along with Cheque/ Demand Draft manian Building, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India, such that the same are efore the last date of payment of the First and Final Call Money i.e. January 24, 2022.	கடன் பெற்றவர் பெயர் : <b>தரு. M. சரவணன்</b> , தமி. முற்றசார் 22. குறுக்கு சந்து, அப்பங்குடி, கவந்தபாடி, பவானி தாலூசா – 638455. வாகனத்தின் பதிவு எண் : TN 36 AP 6888 கணக்கு எண். : 376067525086 EMD : ரூ.7.1800/–	சொத்துக்கான குறைந்தபட்ச நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ.74,00,000, மற்றும் முன்வைப்புக் தொகை ரூ.7,40,000/– என்பதாகும். அசையாச் சொத்தின் வியாம் : ஈரோடு, பிரப் ரோடு, அரசு மருத்துவபனை மற்றும் சவிதா பேருந்து நிறுத்த
Exchanges wit paid-up equity commence wit 2 weeks from J	trading of the ₹ 6.00 partly paid-up equity shares of the Company (ISN: IN9324L01011) on the Stock n effect from December 31, 2021 on account of the First and Final Call. Trading of the ₹ 10.00 fully shares of the Company ("RPP Equity Shares") under the existing ISN INES24L20013 is expected to in a period of 2 weeks from the last date for making the payment of First & Final Call, i.e., within anuary 24, 2022. The consequences of failure to pay First & Final Call, given below:	கடன் பெற்றவர் பெயர் : <b>ஒருமதி.M.யமுனா,</b> கடிபடக்கன் முகவேல், 450/2, கல்லியேடு, வௌசரி அஞ்சல், திருச்செங்கோடு, நாமக்கல்– 637210. வாகனத்தின் பதிவு எண் : TN 34 AP 4750 RC உடன்	அருகில், கலைமகள் கல்வி நிலையம் பள்ளி ரோடு பிளாக் எண்.5, வார்டு பழைய டவுன் சர்வே எண்.475, புதிய டவுன் சர்வே எண்.27 இதிலுள்ள 17 சதூர அடி நிலம் மற்றும் அதில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடம், பழைய கதவு எண். புதிய கதவு எண்கள்.45, 45/1, 46, 46/1, 47, 47/2, நடராஜ முதலியார் மக திரு.N.சிவஞானம் பெயரிலுள்ளது. மனை நிலத்தின் <u>எல்லைகள்–</u> வடக்கே :
a. Interest @ I	e the consequences of fature to pay rist & rinal Call, given below: .00 % (Eight per cent only) p.a. will be payable for delay in payment of First & Final Call beyond January 24, actual date of payment:	கணக்கு எண். : 37377073329 EMD : ரூ.53,800/– கடன் பெற்றவர் பெயர் : திருமதி.M.சர்பினா பானு, குயாரிப்ப/மாடல் : HYUNDAI MOTORS INDIA LTD/	அடி அகல கிழமேல் ரோடு, தெற்கே : திருமதிரத்தினம்மாளுக்குச் சொந்தம சொத்து, கிழக்கே : திரு.N.சிவஞானத்துக்குத் சொந்தமான சொத்து, மேற் திரு.தெலுமேலு மற்றும் பிறரக்குச் சொந்தமான சொத்து மொத்த நிலப்பரட்
	ny shall be entitled to deduct from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of erest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and	க/பெ.முகமது பூசுப், 13/14 தேவராஜ் தோட்டம், வாணிபுத்தூர், கோபிசெட்டிபாளையம், ஈரோடு–638506. ரிசாவ் விலை : ரூ.3,18,600/– (GST சோ்த்து)	அரு எஜயலைது மற்றும் பற்றுக்குச் வளந்தயான் வளத்து. எயர்த்த நல்பபர் 1101 சதர அடி. சொத்தானது ஈரோடு பதிவு மாலட்டம் மற்றும் ஈரோடு சார் பு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்டு அமைந்துள்ளது.
	aid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon are orfeited in accordance with the Articles of Association of the Company and the LOF.	வாகனத்தின் பதிவு எண் : TN 36 AD 6786 ஈட் உடன் கணக்கு எண். : <b>35903508714</b> EMD : ரூ.31,900/–	<u>ஏலம் நடைபெறும் இடம் :</u> தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் பேங்க் லிட்
duplicate First a http://www.rppip In such a case	-receipt of the First and Final Call Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the nd Final Call Notice from the Registrar or may also download the same from the Company's website com/shareholdersinformation.php or the Registrar's website https://ights.cameoindia.com/rpp/callmoney however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held able towards the First and Final Call Money.	எல விற்பனை வியாம் : வாகனத்தைப் பார்வையிடும் நாள் : 19.01.2022 லிருந்து காலை 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 02.00 வரை மற்றும் இடம் ஸ்டார் அசோசியேட்ஸ், பார்க்கில் யார்டு, ராமநாதபுரம் புதூர், பவாகி யோடு, சுளோடு	ஈரோடு கினை : KMP டவர்ஸ், எண்.41, தெப்பக்குளம் வீதி, ஈரோடு–638001. கிளைத் தலைவர் : 9842258477 மற்றும் அங்கீனிக்கப்பட்ட அதிகாரி : 9842835635 போன் : 0424–2256502, 0424–2255834.
or on the webs also seek clarifi	Final Call are available on the website of the Company. <a href="http://www.rppipl.com/shareholders-information.php">http://www.rppipl.com/shareholders-information.php</a> te of Cameo Corporate Services Limited ("RTA"): <a href="http://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney">http://rights.cameoindia.com/rpp/callmoney</a> . You may ations on any query related to the payment of First & Final Call on the helpline number +91 73388 08555 986 (operational from Monday to Fiday between 10 AM and 5 PM).	விருப்பக் கடிதம் / KYC ஆவணங்கள் / EMD க்கான சான்று : <b>19.01.2022 மாலை 4.00 மணி வரை.</b> முதலியன சமர்ப்பிபதற்கான கடைசித் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி/எலம் : <b>20.01.2022 மாலை</b> 03.00 மணி. ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா,	ஏலத் தேதி மற்றும் நேரம் : 10.02.2022 (வியாழக்கிழமை); மாலை 4.00 மணி. ஒவ்வொரு டெண்டர் விண்ணப்பதாரரும் முன் வைப்புத்தொகையா
11. All the correspo CAMEO CORP	dence in this regard may be addressed to: <b>PATE SERVICES LIMITED,</b> Projects LL4 First and Final Call	நடைபெறும் நாள் & இடம் ஈரோடு–638001. குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை செலுத்தவேண்டிய <b>கணக்கு எண். 37608137386</b> BY RTGS/NEFT கூடுதல் ஏல உயர்வு தொகை : ரூ.2,000	நிர்ணாயிக்கப்பட்டவிலையில் 10 சதவீத தொகைக்களாவரைவோலையை தமிழ்நா மொக்கன் டைல் பேங்க் லிமிடெட் பெயரில் ஈரோட்டில் மாற்றத்தக்கதா 10.02.2022 அன்று மாலை 3.30 மணிக்குள் அல்லது அதற்கு முன்பாக செலங்க வேண்டும்.
PHONE: 044-28 FAX: 044-28460		<u>ஏலத்திற்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் :</u> மேற்படி வாகனம் 'தற்போது உள்ள நிலையில் உள்ளது உள்ளபடி' விற்பனை செய்யப்டடும். விருப்பமுள்ள ஏலதாார்கள் 10% முள்வைப்புத் தொகை கணக்கு என்.37608137386 மற்றும் எலத்தில் வென்றவர்கள் ஏல தினத்தன்று ஏலம் கோரிய தொகையில் 25 சதவீதத்தையும், பீத்த் தொகையை அன்றிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள்ளும் செலுத்திலிட வேன்டும்.	விற்பனை குறித்த விரிவான நிபந்தனை விபரங்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட் கடவீந்த வங்கியின் இணையதளத்தில் பார்வையிடலாம். (www.tmb.in) அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகா
	For R.P.P. Infra Projects Limited sd/	குவிலையில் 23 சதவத்ததையும், மத்த குவிலையை அன்றுலருந்து 7 நிட்களுக்குவளும் வசலுத்துவட வேலாரும். தவறினால் கட்டிய ஏலத் தொகை திருப்பி தரப்படமாட்டாது. வங்கி காரணம் ஏதும் காட்டாது எந்த ஒரு அல்லது அனைத்து ஏலக் குறிப்பினையும் ஏற்கவோ 7 நிராகரிக்கவோத்தாளி வைக்கவோ, ரத்து செய்யவோ உரிமை உடையதெனத்	இடம் : ஈரோடு தமிழ்நாடு மொக்கன்டைல் பேங்க் லி தேதி : 06.01.2022 ஈரோடு கி
Place: Erode	Pradeep Kumar Nath	தெரிவிக்கலாகிறது.	
Date : January 06, 20	22 Company Secretary and Compliance Officer PRESSM	இடம் : ஈரோடு தேதி : 06.01.2022 ல்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா, ஈரோடு	aning and the state of the stat